



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 363) पटना, मंगलवार, 2 मई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

19 अप्रील 2017

सं0 22/नि0सि0(विविध)वीर-21-24/17/547—श्री शिवनाथ रूद्र, लेखा लिपिक, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर को एक अल्पसंख्यक महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में अगस्त 2016 में वीरपुर से मोहनियाँ स्थानांतरित किया गया था। श्री रूद्र द्वारा उक्त स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध दायर एल0पी0ए0 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि इनका स्थानांतरण आरोप के साथ किया गया है। विभाग चाहे तो कार्य हित में स्थानांतरण कर सकता है।

श्री रूद्र, लेखा लिपिक का स्थानांतरण नवम्बर 2016 में कार्यहित में वीरपुर से मोहनियाँ करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया। साथ ही श्री श्रीनिवास प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर को इन्हें एक सप्ताह के अंदर विरमित करने का निदेश दिया गया किंतु श्री श्रीनिवास प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा इन्हें विरमित नहीं किया गया।

दूरभाष पर श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता से पूछने पर जवाब दिया गया कि मार्च 2017 के बाद उन्हें विरमित किया जायेगा। इस निमित्त श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया। किंतु श्री प्रसाद द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फलतः श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश की अवहेलना करने के प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर से निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया :—

(i) “निन्दन” वर्ष 2016-17

(ii) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीनिवास प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल सं०-2, वीरपुर को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) "निन्दन" वर्ष 2016-17

(ii) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० राजीव कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 363-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>